



MR.Chirah

17 Apr 2026

10:45 AM

Delhi

Model: Web-MyKundli

Order No: 121959801

सूचना

ज्योतिष एक विज्ञान है जिसके अंतर्गत ग्रहों का मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। इसके प्रभावों की भविष्यवाणी करने हेतु ग्रहों की स्थिति एवं इसके बल की गणना की जाती है। जन्मपत्रिकाओं की गणना अति सटीक है जिसमें बिल्कुल सही रेखांश प्रयुक्त हुए हैं। सामान्य तौर पर इसमें चित्रापक्षीय अयनांश का प्रयोग किया जाता है जबतक कि आप दूसरे अयनांश का विकल्प न मांगें।

कम्प्यूटर जन्मपत्रिकाएं मुख्य रूप से पाराशरी पद्धति पर आधारित है। हालांकि इसमें ताजिक पद्धति, जैमिनी पद्धति, कृष्णमूर्ति पद्धति, प्रश्नशास्त्र एवं पाश्चात्य पद्धतियों का भी ज्योतिषीय गणना में मिश्रण किया गया है। फलादेश मुख्य रूप से विभिन्न प्राचीन शास्त्रों जैसे बृहत् पराशर, होराशास्त्र, मानसागरी, सारावली, जातकभरणम, बृहत् जातक, फलदीपिका, जातक पारिजात के अनुरूप, साथ ही अपने अनुभवों का भी समावेश करके बनाया गया है। फिर भी, ज्योतिष का मार्गदर्शन लेकर हम अपने भविष्य का संकेत मात्र प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा ही यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि आनेवाले समय में क्या घटित होगा ?

यह जन्मपत्रिका जन्म तिथि, जन्म समय एवं जन्म स्थान पर आधारित है जो कि जातक ने हमें उपलब्ध कराया है। अतः आंकड़ों की सटीकता से संबंधित हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। ज्योतिषीय गणना एवं फलादेश जातक द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के ऊपर आधारित है। जन्मपत्रिका में दिए गए फलादेश जातक के लिए सिर्फ संकेत मात्र है जिस पर जातक को सावधानीपूर्वक अमल करना चाहिए न कि हूबहू जैसा फलादेश में कहा गया है, बिना सोचे समझे उसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करनी चाहिए। जन्मपत्रिका के विभिन्न पृष्ठों में दी गयी सूचनाएं किसी भी प्रकार के विवाद अथवा वैधानिक कार्यवाही के लिए उपयुक्त नहीं है। अतः जातक की स्वयं की कार्यवाही से उत्पन्न हुए किसी भी क्षति के लिए हम उत्तरदायी नहीं है।

लिंग _____: पुल्लिंग
जन्म तिथि _____: 17/04/2026
दिन _____: शुक्रवार
जन्म समय _____: 10:45:00 घंटे
इष्ट _____: 12:07:21 घटी
स्थान _____: Delhi
देश _____: India

अक्षांश _____: 28:39:00 उत्तर
रेखांश _____: 77:13:00 पूर्व
मध्य रेखांश _____: 82:30:00 पूर्व
स्थानिक संस्कार _____: -00:21:08 घंटे
ग्रीष्म संस्कार _____: 00:00:00 घंटे
स्थानिक समय _____: 10:23:52 घंटे
वेलान्तर _____: 00:00:24 घंटे
साम्पातिक काल _____: 00:05:17 घंटे
सूर्योदय _____: 05:54:03 घंटे
सूर्यास्त _____: 18:47:55 घंटे
दिनमान _____: 12:53:52 घंटे
सूर्य स्थिति(अयन) _____: उत्तरायण
सूर्य स्थिति(गोल) _____: उत्तर
ऋतु _____: वसन्त
सूर्य के अंश _____: 02:59:15 मेष
लग्न के अंश _____: 19:11:32 मिथुन

अवकहड़ा चक्र

लग्न-लग्नाधिपति _____: मिथुन - बुध
राशि-स्वामी _____: मीन - गुरु
नक्षत्र-चरण _____: रेवती - 4
नक्षत्र स्वामी _____: बुध
योग _____: विष्कुम्भ
करण _____: नाग
गण _____: देव
योनि _____: गज
नाड़ी _____: अन्त्य
वर्ण _____: विप्र
वश्य _____: जलचर
वर्ग _____: सिंह
युँजा _____: पूर्व
हंसक _____: जल
जन्म नामाक्षर _____: ची-चिराग
पाया(राशि-नक्षत्र) _____: ताम्र - स्वर्ण
सूर्य राशि(पाश्चात्य) _____: मेष

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

पंचांग

दादा का नाम _____ :
पिता का नाम _____ :
माता का नाम _____ :
जाति _____ :
गोत्र _____ :

कैलेंडर	वर्ष	मास	तिथि/प्रविष्टे
राष्ट्रीय	शक : 1948	चैत्र	27
पंजाबी	संवत : 2083	वैशाख	4
बंगाली	सन् : 1433	वैशाख	3
तमिल	संवत : 2083	चिथिराई	4
केरल	कोल्लम : 1201	मेदम	4
नेपाली	संवत : 2083	वैशाख	4
चैत्रादि	संवत : 2083	वैशाख	कृष्ण 15
कार्तिकादि	संवत : 2083	चैत्र	कृष्ण 15

पंचांग

सूर्योदय कालीन तिथि _____ : 15
तिथि समाप्ति काल _____ : 17:21:31
जन्म तिथि _____ : 15
सूर्योदय कालीन नक्षत्र _____ : रेवती
नक्षत्र समाप्ति काल _____ : 12:02:10 घंटे
जन्म योग _____ : रेवती
सूर्योदय कालीन योग _____ : वैधृति
योग समाप्ति काल _____ : 07:21:38 घंटे
जन्म योग _____ : विष्कुम्भ
सूर्योदय कालीन करण _____ : चतुष्पाद
करण समाप्ति काल _____ : 06:49:45 घंटे
जन्म करण _____ : नाग
भयात _____ : 51:55:41
भभोग _____ : 55:08:34
भोग्य दशा काल _____ : बुध 1 वर्ष 0 मा 0 दि

घात चक्र

मास _____ : फाल्गुन
तिथि _____ : 5-10-15
दिन _____ : शुक्रवार
नक्षत्र _____ : आश्लेषा
योग _____ : वज्र
करण _____ : चतुष्पाद
प्रहर _____ : 4
वर्ग _____ : मृग
लग्न _____ : सिंह
सूर्य _____ : मिथुन
चन्द्र _____ : कुम्भ
मंगल _____ : कर्क
बुध _____ : कुम्भ
गुरु _____ : सिंह
शुक्र _____ : कन्या
शनि _____ : वृष
राहु _____ : तुला

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)


Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710


shailu.sikdar1990@gmail.com

जन्म कुण्डली

लग्न कुण्डली



चन्द्र कुण्डली



Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

लग्न कुण्डली और दशा

लग्न कुंडली

बु चं मं श	शु सू		ल गु
रा			
			के

लग्न कुंडली

	शु सू	बु चं मं श	श
गु ल			रा
के			

विंशोत्तरी
बुध 1वर्ष 0मा 0दि
बुध

17/04/2026

18/04/2130

बुध	17/04/2027
केतु	17/04/2034
शुक्र	17/04/2054
सूर्य	17/04/2060
चन्द्र	17/04/2070
मंगल	17/04/2077
राहु	17/04/2095
गुरु	18/04/2111
शनि	18/04/2130

योगिनी

उल्का 0वर्ष 4मा 7दि

उल्का

17/04/2026

24/08/2026

	00/00/0000
	00/00/0000
	00/00/0000
	00/00/0000
	00/00/0000
	00/00/0000
	00/00/0000
	17/04/2026
भद्रिका	24/08/2026

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com


ग्रह स्पष्ट तथा उनकी स्थिति

ग्रह	व	अ	राशि	अंश	गति	नक्षत्र	पद	नं.	रा	न	अं.	स्थिति
लग्न			मिथु	19:11:32	315:06:51	आर्द्रा	4	6	बुध	राहु	चंद्र	---
सूर्य			मेष	02:59:15	00:58:43	अश्विनी	1	1	मंगल	केतु	शुक्र	उच्च राशि
चंद्र			मीन	29:12:55	14:38:22	रेवती	4	27	गुरु	बुध	शनि	सम राशि
मंगल		अ	मीन	11:31:32	00:46:30	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	चंद्र	मित्र राशि
बुध			मीन	08:45:50	01:28:09	उ०भाद्रपद	2	26	गुरु	शनि	शुक्र	नीच राशि
गुरु			मिथु	22:58:23	00:06:31	पुनर्वसु	1	7	बुध	गुरु	शनि	शत्रु राशि
शुक्र			मेष	27:18:13	01:13:16	कृतिका	1	3	मंगल	सूर्य	सूर्य	सम राशि
शनि		अ	मीन	13:18:42	00:07:13	उ०भाद्रपद	3	26	गुरु	शनि	राहु	सम राशि
राहु		व	कुंभ	13:44:15	00:06:39	शतभिषा	3	24	शनि	राहु	बुध	मित्र राशि
केतु		व	सिंह	13:44:15	00:06:39	पू०फाल्गुनी	1	11	सूर्य	शुक्र	शुक्र	शत्रु राशि
हर्ष			वृष	05:18:26	00:03:05	कृतिका	3	3	शुक्र	सूर्य	बुध	---
नेप			मीन	08:34:16	00:02:07	उ०भाद्रपद	2	26	गुरु	शनि	शुक्र	---
प्लूटो			मक	11:11:45	00:00:33	श्रवण	1	22	शनि	चंद्र	मंगल	---
दशम भाव			मीन	07:12:58	--	उ०भाद्रपद	--	26	गुरु	शनि	बुध	--


व - वकी स - स्थिर
अ - अस्त पू - पूर्ण अस्त
राहु : स्पष्ट

चित्रपक्षीय अयनांश : 24:13:33


लग्न-चलित



चन्द्र कुंडली



नवमांश कुंडली



Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

चलित तथा निरयण भाव चलित

चलित अंश

भाव	भाव संधि	भाव मध्य
1	मिथुन 02:11:46	मिथुन 19:11:32
2	कर्क 02:11:46	कर्क 15:12:01
3	कर्क 28:12:15	सिंह 11:12:29
4	सिंह 24:12:44	कन्या 07:12:58
5	कन्या 24:12:44	तुला 11:12:29
6	तुला 28:12:15	वृश्चिक 15:12:01
7	धनु 02:11:46	धनु 19:11:32
8	मकर 02:11:46	मकर 15:12:01
9	मकर 28:12:15	कुम्भ 11:12:29
10	कुम्भ 24:12:44	मीन 07:12:58
11	मीन 24:12:44	मेष 11:12:29
12	मेष 28:12:15	वृष 15:12:01


निरयण भाव चलित

भाव	राशि	अंश
1	मिथुन	19:11:32
2	कर्क	11:50:49
3	सिंह	07:06:08
4	कन्या	07:12:58
5	तुला	11:56:33
6	वृश्चिक	17:12:22
7	धनु	19:11:32
8	मकर	11:50:49
9	कुम्भ	07:06:08
10	मीन	07:12:58
11	मेष	11:56:33
12	वृष	17:12:22


तारा चक्र

जन्म	सम्पत	विपत	क्षेम	प्रत्यारि	साधक	वध	मित्र	अतिमित्र
रेवती	अश्विनी	भरणी	कृतिका	रोहिणी	मृगशिरा	आर्द्रा	पुनर्वसु	पुष्य
आश्लेषा	मघा	पूर्वाफाल्गुनी	उ०फाल्गुनी	हस्त	चित्रा	स्वाति	विशाखा	अनुराधा
ज्येष्ठा	मूल	पूर्वाषाढा	उत्तराषाढा	श्रवण	धनिष्ठा	शतभिषा	पूर्वाभाद्रपद	उ०भाद्रपद

चलित कुंडली



भाव कुंडली



Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

विंशोत्तरी दशा

भोग्य दशा काल : बुध 1 वर्ष 0 मास 0 दिन

बुध 17 वर्ष 17/04/2026 17/04/2027	केतु 7 वर्ष 17/04/2027 17/04/2034	शुक्र 20 वर्ष 17/04/2034 17/04/2054	सूर्य 6 वर्ष 17/04/2054 17/04/2060	चंद्र 10 वर्ष 17/04/2060 17/04/2070
00/00/0000	केतु 14/09/2027	शुक्र 17/08/2037	सूर्य 05/08/2054	चंद्र 15/02/2061
00/00/0000	शुक्र 13/11/2028	सूर्य 17/08/2038	चंद्र 03/02/2055	मंगल 16/09/2061
00/00/0000	सूर्य 21/03/2029	चंद्र 17/04/2040	मंगल 11/06/2055	राहु 18/03/2063
00/00/0000	चंद्र 20/10/2029	मंगल 17/06/2041	राहु 05/05/2056	गुरु 17/07/2064
00/00/0000	मंगल 18/03/2030	राहु 17/06/2044	गुरु 21/02/2057	शनि 15/02/2066
00/00/0000	राहु 05/04/2031	गुरु 16/02/2047	शनि 03/02/2058	बुध 18/07/2067
00/00/0000	गुरु 11/03/2032	शनि 17/04/2050	बुध 11/12/2058	केतु 16/02/2068
17/04/2026	शनि 20/04/2033	बुध 15/02/2053	केतु 17/04/2059	शुक्र 17/10/2069
शनि 17/04/2027	बुध 17/04/2034	केतु 17/04/2054	शुक्र 17/04/2060	सूर्य 17/04/2070

मंगल 7 वर्ष 17/04/2070 17/04/2077	राहु 18 वर्ष 17/04/2077 17/04/2095	गुरु 16 वर्ष 17/04/2095 18/04/2111	शनि 19 वर्ष 18/04/2111 18/04/2130	बुध 17 वर्ष 18/04/2130 18/04/2146
मंगल 13/09/2070	राहु 29/12/2079	गुरु 05/06/2097	शनि 21/04/2114	बुध 14/09/2132
राहु 02/10/2071	गुरु 24/05/2082	शनि 17/12/2099	बुध 29/12/2116	केतु 11/09/2133
गुरु 07/09/2072	शनि 30/03/2085	बुध 25/03/2102	केतु 07/02/2118	शुक्र 12/07/2136
शनि 17/10/2073	बुध 17/10/2087	केतु 01/03/2103	शुक्र 09/04/2121	सूर्य 18/05/2137
बुध 14/10/2074	केतु 04/11/2088	शुक्र 30/10/2105	सूर्य 22/03/2122	चंद्र 18/10/2138
केतु 12/03/2075	शुक्र 04/11/2091	सूर्य 18/08/2106	चंद्र 21/10/2123	मंगल 15/10/2139
शुक्र 11/05/2076	सूर्य 28/09/2092	चंद्र 18/12/2107	मंगल 29/11/2124	राहु 03/05/2142
सूर्य 16/09/2076	चंद्र 30/03/2094	मंगल 23/11/2108	राहु 06/10/2127	गुरु 08/08/2144
चंद्र 17/04/2077	मंगल 17/04/2095	राहु 18/04/2111	गुरु 18/04/2130	शनि 18/04/2146

- ❖ उपरोक्त दशा चंद्रमा के अंशो के आधार पर दी गई है। भयात भभोग के आधार पर दशा का भोग्यकाल बुध 0 वर्ष 11 मा 27 दि होता है।
- ❖ उपरोक्त तिथियां दशा के समाप्त होने का समय दर्शाती हैं। विंशोत्तरी दशा पूरे 120 वर्ष की बिना आयुनिर्णय के दी गई हैं।

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

विंशोत्तरी दशा - प्रत्यन्तर

बुध - शनि	केतु - केतु	केतु - शुक्र	केतु - सूर्य	केतु - चंद्र
17/04/2026	17/04/2027	14/09/2027	13/11/2028	21/03/2029
17/04/2027	14/09/2027	13/11/2028	21/03/2029	20/10/2029
00/00/0000	केतु 26/04/2027	शुक्र 24/11/2027	सूर्य 19/11/2028	चंद्र 07/04/2029
00/00/0000	शुक्र 21/05/2027	सूर्य 15/12/2027	चंद्र 30/11/2028	मंगल 20/04/2029
00/00/0000	सूर्य 28/05/2027	चंद्र 19/01/2028	मंगल 07/12/2028	राहु 22/05/2029
00/00/0000	चंद्र 10/06/2027	मंगल 13/02/2028	राहु 26/12/2028	गुरु 19/06/2029
17/04/2026	मंगल 19/06/2027	राहु 17/04/2028	गुरु 12/01/2029	शनि 23/07/2029
चंद्र 17/05/2026	राहु 11/07/2027	गुरु 13/06/2028	शनि 02/02/2029	बुध 22/08/2029
मंगल 13/07/2026	गुरु 31/07/2027	शनि 19/08/2028	बुध 20/02/2029	केतु 03/09/2029
राहु 07/12/2026	शनि 23/08/2027	बुध 19/10/2028	केतु 27/02/2029	शुक्र 09/10/2029
गुरु 17/04/2027	बुध 14/09/2027	केतु 13/11/2028	शुक्र 21/03/2029	सूर्य 20/10/2029
केतु - मंगल	केतु - राहु	केतु - गुरु	केतु - शनि	केतु - बुध
20/10/2029	18/03/2030	05/04/2031	11/03/2032	20/04/2033
18/03/2030	05/04/2031	11/03/2032	20/04/2033	17/04/2034
मंगल 28/10/2029	राहु 14/05/2030	गुरु 21/05/2031	शनि 14/05/2032	बुध 10/06/2033
राहु 20/11/2029	गुरु 04/07/2030	शनि 14/07/2031	बुध 11/07/2032	केतु 01/07/2033
गुरु 10/12/2029	शनि 03/09/2030	बुध 31/08/2031	केतु 03/08/2032	शुक्र 31/08/2033
शनि 02/01/2030	बुध 27/10/2030	केतु 20/09/2031	शुक्र 10/10/2032	सूर्य 18/09/2033
बुध 23/01/2030	केतु 19/11/2030	शुक्र 16/11/2031	सूर्य 30/10/2032	चंद्र 18/10/2033
केतु 01/02/2030	शुक्र 22/01/2031	सूर्य 03/12/2031	चंद्र 03/12/2032	मंगल 08/11/2033
शुक्र 26/02/2030	सूर्य 10/02/2031	चंद्र 31/12/2031	मंगल 26/12/2032	राहु 02/01/2034
सूर्य 05/03/2030	चंद्र 14/03/2031	मंगल 20/01/2032	राहु 25/02/2033	गुरु 19/02/2034
चंद्र 18/03/2030	मंगल 05/04/2031	राहु 11/03/2032	गुरु 20/04/2033	शनि 17/04/2034
शुक्र - शुक्र	शुक्र - सूर्य	शुक्र - चंद्र	शुक्र - मंगल	शुक्र - राहु
17/04/2034	17/08/2037	17/08/2038	17/04/2040	17/06/2041
17/08/2037	17/08/2038	17/04/2040	17/06/2041	17/06/2044
शुक्र 06/11/2034	सूर्य 04/09/2037	चंद्र 07/10/2038	मंगल 12/05/2040	राहु 28/11/2041
सूर्य 06/01/2035	चंद्र 04/10/2037	मंगल 11/11/2038	राहु 14/07/2040	गुरु 23/04/2042
चंद्र 17/04/2035	मंगल 26/10/2037	राहु 10/02/2039	गुरु 09/09/2040	शनि 14/10/2042
मंगल 27/06/2035	राहु 19/12/2037	गुरु 03/05/2039	शनि 16/11/2040	बुध 18/03/2043
राहु 27/12/2035	गुरु 06/02/2038	शनि 07/08/2039	बुध 15/01/2041	केतु 21/05/2043
गुरु 06/06/2036	शनि 05/04/2038	बुध 01/11/2039	केतु 09/02/2041	शुक्र 20/11/2043
शनि 16/12/2036	बुध 27/05/2038	केतु 07/12/2039	शुक्र 21/04/2041	सूर्य 13/01/2044
बुध 07/06/2037	केतु 17/06/2038	शुक्र 17/03/2040	सूर्य 12/05/2041	चंद्र 14/04/2044
केतु 17/08/2037	शुक्र 17/08/2038	सूर्य 17/04/2040	चंद्र 17/06/2041	मंगल 17/06/2044

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

शुभाशुभ ज्ञानम्

शुभाशुभज्ञान आपको अपने मित्र एवं शत्रु वर्ग का बोध कराता है। मूलांक, भाग्यांक एवं मित्रांक से मित्रता एवं साझेदारी करने से लाभ तथा सहयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही शुभ दिन एवं वर्ष उन्नति कारक तथा शुभ ग्रहों की दशाएं लाभदायक होती हैं। इसी प्रकार मित्रलग्न लाभदायक एवं मित्र राशि से घनिष्ठता होती है।

शुभरत्न धातु एवं रंग धारण करने से शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता बनी रहती है तथा भाग्य रत्न धारण करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। शुभ समय में कोई भी कार्य प्रारम्भ करने से उसमें इच्छित सफलता की प्राप्ति होती है। साथ ही इष्टदेव का ध्यान एवं जप से मानसिक शान्ति तथा सफलता मिलती है। शुभ पदार्थ अन्न, द्रव्य आदि का दान या व्यापार शुभ दिशा में करने से वांछित लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार शुभाशुभज्ञान का दैनिक जीवन में प्रयोग शुभफलदायक सिद्ध हो सकता है।


मूलांक	8
भाग्यांक	4
मित्र अंक	1, 2, 8, 4
शत्रु अंक	3, 7, 9
शुभ वर्ष	26,35,44,53,62
शुभ दिन	बुध, शुक्र, शनि
शुभ ग्रह	बुध, शुक्र, शनि
मित्र राशि	वृश्चिक, धनु
मित्र लग्न	कन्या, कुम्भ, मेष
अनुकूल देवता	जगदम्बा
शुभ रत्न	पन्ना
शुभ उपरत्न	संगपन्ना, मरगज
भाग्य रत्न	नीलम
शुभ धातु	कांसा
शुभ रंग	हरित
शुभ दिशा	उत्तर
शुभ समय	सूर्योदय के बाद
दान पदार्थ	हाथी दाँत, कपूर, फल
दान अन्न	मूँग
दान द्रव्य	घी

रत्न चयन

रत्न जीवन में शुभत्व की वृद्धि के लिए धारण किए जाते हैं। वैज्ञानिक रूप से, रत्न अपने ग्रह की राशियों को पूर्णमात्रा में मानव शरीर में प्रवाहित कर ग्रह प्रभाव की वृद्धि करते हैं। यही कारण है कि रत्न केवल शुभ ग्रहों का ही धारण किया जाता है। ग्रह शुभ माना जाता है यदि यह लग्न, त्रिकोण या केन्द्र में स्थापित हो या स्वामी हो। यह अशुभ होता है यदि यह त्रिक भाव से संबंधित हो। मित्रों की युति या दृष्टि भी इसकी शुभता बढ़ाती है। बाधक भाव का स्वामित्व शुभता कम कर देता है। चर लग्नों में एकादश, स्थिर में नवम व द्विस्वभाव में सप्तम भाव की बाधक संज्ञा है। उपरोक्त तथ्य रत्न चयन हेतु ग्रह की शुभता दर्शाते हैं।

नीचे जन्मकुण्डली में ग्रहों की शुभता को सारणी व ग्राफ में दर्शित किया गया है। साथ ही कौन सा ग्रह किस क्षेत्र में कार्य सिद्ध कर सकता है दिया गया है। विभिन्न दशाओं में विभिन्न रत्नों की शुभता भी नीचे तालिका में दी गई है। जिस ग्रह को 75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उसके रत्न हमें सर्वदा बिना दशा विचार के धारण करने चाहिए। जिन्हें 50-75 प्रतिशत शुभता प्राप्त है उन्हें कार्य क्षेत्र अनुसार व अनुकूल दशा में धारण करना चाहिए। जो रत्न केवल 25-50 प्रतिशत शुभता लिए हैं उनके रत्न केवल उनकी या उनके मित्रों की दशा में धारण करने चाहिए। अन्ततः जिन्हें 25 प्रतिशत से भी कम शुभता प्राप्त है वे ग्रह अपने लिए अशुभ ही समझें और उनके रत्नों को पहनने से बचना चाहिए।

रत्न	ग्रह	शुभता	क्षेत्र
पन्ना	बुध	97%	व्यावसायिक उन्नति, स्वास्थ्य, सुख
गोमेद	राहु	77%	भाग्योदय, व्यावसायिक उन्नति
हीरा	शुक्र	69%	धनार्जन, कम खर्च, सन्तति सुख
नीलम	शनि	69%	व्यावसायिक उन्नति, दुर्घटना से बचाव, भाग्योदय
मोती	चंद्र	67%	व्यावसायिक उन्नति, धन
पुखराज	गुरु	64%	स्वास्थ्य, दम्पति, व्यावसायिक उन्नति
माणिक्य	सूर्य	61%	धनार्जन, पराक्रम
लहसुनिया	केतु	55%	पराक्रम, धनार्जन
मूंगा	मंगल	31%	व्यावसायिक हानि, हानि, शत्रु व रोग



दशानुसार रत्न विचार

दशा	समाप्ति	माणिक्य	मोती	मूंगा	पन्ना	पुखराज	हीरा	नीलम	गोमेद	लहसुनिया
बुध	17/04/2027	67%	55%	31%	100%	64%	75%	69%	77%	55%
केतु	17/04/2034	47%	55%	44%	97%	64%	75%	56%	64%	67%
शुक्र	17/04/2054	47%	55%	31%	100%	64%	81%	75%	83%	61%
सूर्य	17/04/2060	73%	73%	44%	97%	70%	56%	56%	64%	34%
चंद्र	17/04/2070	67%	80%	31%	100%	64%	69%	69%	64%	34%
मंगल	17/04/2077	67%	73%	53%	84%	70%	69%	69%	64%	61%
राहु	17/04/2095	47%	55%	6%	97%	64%	75%	75%	89%	34%
गुरु	18/04/2111	67%	73%	44%	84%	77%	56%	69%	77%	55%
शनि	18/04/2130	47%	55%	6%	100%	64%	75%	81%	83%	34%

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

साढ़ेसाती विचार

चंद्रमा से जन्म कुंडली में जब गोचरवश शनि की स्थिति द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में होती है तो साढ़ेसाती कहलाती है। शनि की चंद्रमा से चतुर्थ एवं अष्टम भाव में स्थिति होने पर ढैया शारीरिक, मानसिक या आर्थिक कष्ट देता है। लेकिन कई बार यह आश्चर्यजनक उन्नति भी प्रदान करती है। साढ़ेसाती का प्रभाव सात वर्ष एवं ढैया का प्रभाव ढाई वर्ष रहता है।

सामान्यतया साढ़ेसाती मनुष्य के जीवन में तीन बार आती है। प्रथम बचपन में द्वितीय युवावस्था में तथा तृतीय वृद्धावस्था में आती है। प्रथम साढ़ेसाती का प्रभाव शिक्षा एवं माता-पिता पर पड़ता है। द्वितीय साढ़ेसाती का प्रभाव कार्यक्षेत्र, आर्थिक स्थिति एवं परिवार पर पड़ता है परंतु तृतीय साढ़ेसाती स्वास्थ्य पर अधिक प्रभाव करती है।

निम्नलिखित तालिका में साढ़ेसाती का समय तथा प्रत्येक ढैया का शुभाशुभ फल इंगित किया गया है।

प्रथम चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	17/04/2026-03/06/2027 20/10/2027-23/02/2028	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	03/06/2027-20/10/2027 23/02/2028-08/08/2029 05/10/2029-17/04/2030	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	31/05/2032-13/07/2034	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	28/01/2041-06/02/2041 26/09/2041-11/12/2043 23/06/2044-30/08/2044	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	25/02/2052-14/05/2054 02/09/2054-05/02/2055	-----

द्वितीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	14/05/2054-02/09/2054 05/02/2055-07/04/2057	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	07/04/2057-27/05/2059	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	11/07/2061-13/02/2062 07/03/2062-24/08/2063 06/02/2064-09/05/2064	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	04/11/2070-05/02/2073 31/03/2073-23/10/2073	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	12/04/2081-03/08/2081 07/01/2082-20/03/2084	-----

तृतीय चक्र:

साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	20/03/2084-21/05/2086 21/05/2086-08/02/2087	-----
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	21/05/2086-21/05/2086 08/02/2087-18/07/2088 31/10/2088-05/04/2089	-----
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	19/09/2090-25/10/2090 21/05/2091-02/07/2093	-----
अष्टम स्थानस्थ ढैया	26/12/2099-17/03/2100 16/09/2100-03/12/2102	-----
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	17/02/2111-02/05/2113 22/09/2113-26/01/2114	-----

शनि का ढैया फल

ढैया के प्रकार	फल	क्षेत्र
साढ़ेसाती द्वितीय ढैया	शुभ	व्यावसाय
साढ़ेसाती तृतीय ढैया	सम	अल्प बचत
चतुर्थ स्थानस्थ ढैया	सम	स्वास्थ्य
अष्टम स्थानस्थ ढैया	शुभ	सन्तति सुख
साढ़ेसाती प्रथम ढैया	शुभ	भाग्योदय

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

साढ़ेसाती के उपाय

शनि की साढ़ेसाती के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिये दान, पूजन, व्रत, मंत्र आदि उपाय किये जा सकते हैं। इसके लिये शनिवार को काला कंबल, उड़द की दाल, काले तिल, चर्म-पादुका, काला कपड़ा, मोटा अनाज, तिल तथा लोहे का दान करना चाहिये। शनिदेव की पूजा एवं शनिवार का व्रत रखना चाहिये। उपवास के दिन उड़द की दाल से बनी वस्तु, चने, बेसन, काले तिल, काला नमक तथा फलों का ही सेवन करना चाहिये। साथ ही स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा शनि के निम्न मंत्र के 19000 जप संपन्न करवाने चाहिये।

ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः ।।

शनि की साढ़ेसाती में शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक शांति एवं समृद्धि, आर्थिक सुदृढ़ता तथा कार्यक्षेत्र में उन्नति के लिये निम्नलिखित महामृत्युंजय मंत्र के 125000 जप स्वयं या किसी योग्य पंडित के द्वारा करवाने चाहिये।

**ॐ त्र्यंबकम यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् ।।**

वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित मंत्र के प्रतिदिन 108 जप किये जा सकते हैं।

ॐ हों जूं सः ॐ भूर्भुव स्वः ॐ ।।

शनि की साढ़ेसाती के शुभत्व को बढ़ाने के लिये शनिवार के दिन आप 5 1/4 रत्ती का नीलम रत्न पंचधातु में (सोना, चांदी, तांबा, लोखंड, जस्ता) या घोड़े की नाल या नाव की कील से निर्मित लोहे की अंगूठी धारण करें। लोहे की अंगूठी आप दाएं हाथ की मध्यमा अंगुली में धारण करें।

अंगूठी शुक्ल पक्ष की शनिवार की सायं सूर्यास्त के समय धारण करें। पुष्य, अनुराधा या उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र अति शुभ हैं। उस दिन शनिवार का उपवास भी करना चाहिए। अंगूठी धारण करने से पूर्व इसे शुद्ध दूध एवं गंगाजल में स्नान कराना चाहिए तथा धूप आदि जलाकर शनि का पूजन करना चाहिए एवं निम्न मंत्र की एक माला या 108 बार जप करना चाहिए। नीलम मध्यमा उंगली में या गले में पेन्डन्ट बनाकर धारण करें।

ॐ शं शनैश्चराय नमः ।

अंगूठी धारण करने के पश्चात शनि की वस्तुओं का दान देना चाहिए। इससे शनि के अशुभ प्रभाव में कमी आयेगी तथा आपकी सुख शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होगी।

श्री हनुमान चालीसा एवं श्री हनुमान अष्टक का पाठ करना श्रेष्ठ है।

मांगलिक विचार

जब वर या कन्या की कुंडली में मंगल लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश भाव में हो तो मांगलिक दोष कहलाता है। यथोक्तम्

**लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे ।
स्त्री भर्तुर्विनाशं च भर्ता च स्त्री विनाशनम् ।**

मांगलिक दोष लग्न से अधिक प्रबल माना जाता है लेकिन चन्द्रमा से इसका दोष लग्न की अपेक्षा अल्प होता है। यदि शास्त्रानुसार वर एवं कन्या का मांगलिक दोष भंग हो जाता है तो उनका दाम्पत्य जीवन सुख एवं प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत होता है। इसके विपरीत बिना दोष भंग हुए मांगलिक वर-कन्याओं को जीवन में कई प्रकार की अनावश्यक समस्याओं तथा व्यवधानों का सामना करना पड़ता है। अतः विवाह से पूर्व शुद्ध कुण्डली मिलान से इस दोष का उचित निवारण करके ही दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करना चाहिए जिससे जीवन में शान्ति तथा सम्पन्नता बनी रहे।

आपके जन्म समय में मंगल चन्द्रमा के साथ जन्म कुंडली में स्थित है। अतः आप चन्द्र कुण्डली से मांगलिक हैं। परन्तु मंगल का योग चन्द्रमा से होने पर आपका मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा मंगल आपको अशुभ फलों की अपेक्षा शुभ फल ही अधिक मात्रा में प्रदान करेगा। इसके शुभ प्रभाव से आप मानसिक तथा शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रहेंगे। परन्तु स्वभाव में यदा कदा उग्रता का भाव उत्पन्न होता रहेगा। इस मंगल के प्रभाव से आपके विवाह में थोड़ा विलम्ब होगा परन्तु विवाह अत्यन्त ही सुखद एवं शान्त वातावरण में सम्पन्न होगा। किसी भी प्रकार से अनावश्यक समस्याओं एवं व्यवधानों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जिससे आप प्रसन्नता पूर्वक दाम्पत्य सुख का उपभोग कर सकेंगे।

चन्द्रमा के साथ मंगल की युति होने से आप एक स्वस्थ पुरुष होंगे तथा मानसिक रूप से भी कभी विचलित नहीं रहेंगे। चन्द्रमा से चतुर्थ भाव पर मंगल की दृष्टि होने से सुख संसाधनों से आप सर्वदा युक्त रहेंगे। जीवन में सुखपूर्वक इनका उपभोग करेंगे। आप चल या अचल सम्पत्ति के स्वामित्व को भी प्राप्त कर सकेंगे। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि से आपकी पत्नी का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा वे स्वभाव से क्रोध के भाव को प्रदर्शित करेंगी। इससे दाम्पत्य जीवन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि से शारीरिक कुशलता बनी रहेगी तथा अधिकांश शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य भी यथा समय सिद्ध होते रहेंगे जिससे आप मानसिक रूप से शान्ति प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आपका दाम्पत्य जीवन सुख एवं शान्ति से व्यतीत होगा।

अपने दाम्पत्य जीवन को अधिक सुखमय बनाने के लिए आपको किसी गैरमांगलिक या ऐसी कन्या से विवाह करना चाहिए जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष उचित

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

नियमानुसार भंग हो रहा हो। यदि आप इस प्रकार से अपना दाम्पत्य जीवन प्रारम्भ करेंगे तो आप अत्यन्त ही भाग्यशाली पुरुष सिद्ध होंगे। आप भौतिक सुख संसाधनों से युक्त होकर प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करेंगे। साथ ही समाज में भी आप पूर्ण मान प्रतिष्ठा तथा यश प्राप्त करने में भी सफल रहेंगे। आपकी पत्नी भी एक सौभाग्यशाली महिला होंगी तथा आपके परस्पर संबंध भी हमेशा मधुर रहेंगे एवं अनावश्यक तनाव तथा कटुता से आप मुक्त ही रहेंगे।

इसके अतिरिक्त कुंडली मिलान के समय समान भाव में मंगल की यदि आवश्यक न हो तो उपेक्षा ही करें क्योंकि समान भावों में मंगल के रहने से दाम्पत्य जीवन में अनावश्यक बाधाएं तथा समस्याएं उत्पन्न होती हैं जिससे यदा कदा आपसी संबंधों में तनाव उत्पन्न होता है। अन्य भावों में स्थित मंगल शुभ रहेगा एवं दाम्पत्य जीवन सुख पूर्वक व्यतीत होगा। अतः सोच समझ कर इस विषय में अन्तिम निर्णय लेना चाहिए।



कालसर्प योग

अग्रे राहुरधः केतुः सर्वे मध्यगताः ग्रहाः ।
योगाऽयं कालसर्पाख्यो शीघ्रं तं तु विनाशय ॥

आगे राहु हो एवं नीचे केतु मध्य में सभी (सातों) ग्रह विद्यमान हो तो कालसर्प योग बनता है। अतः इस योग से ग्रसित जातकों के लिए आवश्यक है कि वे इस काल सर्प योग का निदान करा लें। जिससे कि कुंडली के शुभ योगों के फल पूर्णयता मिलते रहें।

द्वादश भावों में राहु की स्थिति के अनुसार काल सर्प योग मुख्यतः द्वादश प्रकार के होते हैं। वे हैं-

1. अनंत, 2. कुलिक, 3. वासुकि, 4 शङ्खपाल, 5. पद्म, 6. महापद्म, 7. तक्षक, 8. कर्कोटक, 9. शङ्खचूड, 10. घातक, 11. विषधर, 12. शेषनाग।

यह योग उदित अनुदित भेद से दो प्रकार के होते हैं राहु के मुख में सभी सातों ग्रह ग्रसित हो जाएं तो उदित गोलाद्ध नामक योग बनता है एवं राहु की पृष्ठ में यदि सभी ग्रह हों तो अनुदितन गोलाद्ध नामक योग बनता है।

यदि लग्न कुंडली में सभी सातों ग्रह राहु से केतु के मध्य में हो लेकिन अंशानुसार कुछ ग्रह राहु केतु की धुरी से बाहर हों तो आंशिक काल सर्प योग कहलाता है। यदि कोई एक ग्रह राहु-केतु की धुरी से बाहर हो तो भी आंशिक काल सर्प योग बनता है।

यदि राहु से केतु तक सभी भावों में कोई न कोई ग्रह स्थित हो तो यह योग पूर्ण रूप से फलित होता है। यदि राहु-केतु के साथ सूर्य या चंद्र हो तो यह योग अधिक प्रभावशाली होता है। यदि राहु, सूर्य व चंद्र तीनों एक साथ हो तो ग्रहणकाल सर्प योग बनता है। इसका फल हजार गुना अधिक हो जाता है। ऐसे जातक को काल सर्प योग की शांति करवाना अति आवश्यक होता है।

काल सर्प योग का प्रभाव

इस योग में उत्पन्न जातक को मानसिक अशांति, धनप्राप्ति में बाधा, संतान अवरोध एवं गृहस्थी में प्रतिपल कलह के रूप में प्रकट होता है। प्रायः जातक को बुरे स्वप्न आते हैं। कुछ न कुछ अशुभ होने की आशंका मन में बनी रहती है। जातक को अपनी क्षमता एवं कार्यकुशलता का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, कार्य अक्सर देर से सफल होते हैं। अचानक नुकसान एवं प्रतिष्ठा की क्षति इस योग के लक्षण हैं।

जातक के शरीर में वात पित्त त्रिदोषजन्य असाध्य रोग अकारण उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोग जो प्रतिदिन क्लेश (पीडा) देते हैं तथा औषधि लेने पर भी ठीक नहीं होते हों, काल सर्प योग के कारण होते हैं।

काल सर्प योग के औपचारिक उपाय के द्वारा इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है। जन्मपत्रिका के अनुसार जब-जब राहु एवं केतु की महादशा, अंतर्दशा आदि

आती है तब तब यह योग असर दिखाता है। गोचर में राहु व केतु का जन्मकालिक राहु-केतु व चंद्र पर भ्रमण भी इस योग को सक्रिय कर देता है। उस समय विशेष ध्यान देकर पूजा अर्चनादि श्रद्धा विश्वास के साथ करें, अवश्य लाभ होगा। कालसर्प योग यंत्र के सम्मुख 43 दिन तक सरसों के तेल का दीया जलाने से भी इन कष्टों से राहत एवं छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है।

जातक पर काल सर्प योग का प्रभाव

आपकी जन्मकुण्डली में शंखचूड़ नामक कालसर्प योग केवल अनुदित रूप में विद्यमान है। अनुदित योग पूर्णरूप से कालसर्प योग की परिभाषा में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसका कुछ फल अवश्य मिलता है। फलस्वरूप जातक को भाग्योदय होने में थोड़ा व्यवधान उपस्थित होता है और नौकरी में आगे बढ़ने के प्रयास में आंशिक रूप से रुकावटें आती हैं। परन्तु कालान्तर में व्यवधान स्वतः हट जाता है और कभी नौकरी में अवनति का भय होता है। व्यापार में थोड़ी बहुत रुकावट आकर नुकसान को जातक प्राप्त करता है। मित्रों द्वारा कपट व्यवहार होने के कारण जातक को धन की क्षति उठानी पड़ती है। पिता के सुख में न्यूनता रहती है। मामा पक्ष से या बहनोई से छल कपट किये जाने पर जातक आंशिक कष्ट पाता है और शासन की तरफ से भी थोड़ा बहुत मुसीबत आती है। अधिकारियों से कभी-कभी मनमुटाव हो जाता है। जिस कारण जातक को न्यायालय से कभी जुर्माना या आंशिक रूप में सजा मिल सकती है।

इस योग के प्रभाव से जातक के शरीर में कभी-कभी रोग व्याधि ग्रसित कर लेती है। जिसमें थोड़ा बहुत धन खर्च हो जाने के कारण आर्थिक स्थिति असामान्य हो जाती है। कालान्तर में पुनः वह सामान्य हो जाती है। जातक को चिन्ता परेशानी समय-समय पर लग जाती है और वैवाहिक जीवन सामान्य होते हुए भी कभी दुःखमय बन जाता है तथा प्रायः भोग से अतृप्त रहती है। घर में सुख शान्ति का थोड़ा बहुत अभाव रहता है। जातक कई प्रकार से धन्ये करता है पर स्थाई सफलता सदैव संदिग्ध रहती है। सुख प्राप्ति के लिए जातक को संघर्ष करना पड़ता है और सामाजिक मान सम्मान एवं प्रतिष्ठा सामान्य रहती है।

यदि आप कभी उपरोक्त परेशानी महसूस करते हैं तो निम्नलिखित उपाय करें, अवश्य लाभ मिलेगा।

1. काल सर्प दोष निवारण यंत्र घर में स्थापित करके, इसका नियमित पूजन करें।
2. बहते पानी में नारियल के फल को तीन बार शुभ मुहूर्त में प्रवाहित करें।
3. बहते पानी में कोयला को शुभ मुहूर्त में तीन बार प्रवाहित करें।
4. हरिजन को मसूर की दाल तथा द्रव्य शुभ मुहूर्त में तीन बार दान करें।
5. हनुमान चलीसा का 108 बार पाठ करें।
6. शयन कक्ष में लाल रंग के पर्दे, चादर तथा तकियों का उपयोग करें।
7. कुल देवता की पूजा करें।
8. धूम्रवस्त्र, तिल, कम्बल एवं सप्तधान्य शुभ मुहूर्त में रात्रि को दान करें।
9. केतु की उपासना उसकी महादशा में अवश्य करें।
10. देवदारु, सरसों तथा लोहवान को उबाल कर एक बार स्नान करें।

11. सवा महीने जौ के दाने पक्षियों को खिलाएँ।
12. नीला रुमाल, नीला घड़ी का पट्टा, नीला पैन्, लोहे की अंगूठी धारण करें।

विशेष

ध्यान रखें कालसर्पयोग का पूजन केवल श्रीखण्ड चन्दन से करें। कुंकुम, सिन्दूर, रोली आदि का प्रयोग न करें। तिरुपति बालाजी के पास कालाहस्ती शिव मंदिर में जाकर कालसर्प योग की शांति का उपाय विधि-विधान से एक बार करें अथवा 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी भी ज्योतिर्लिंग में जाकर पूजा करें जैसे - कि सौराष्ट्र गुजरात में सोमनाथ मंदिर, महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर, उज्जैन, भीमाशंकर, नागेश्वर, रामेश्वर, वगैरे।



पितृदोष विचार

पितृदोष क्या है ?

हमारे पूर्वज या परिवार के सदस्य मृत्योपरान्त पितृ संज्ञा प्राप्त करते हैं। पितृ हमारे और भगवान के बीच की कड़ी होते हैं। यदि ये प्रसन्न होते हैं तो जातक सुखी जीवन भोगता है, लेकिन यदि किसी कारणवश ये अप्रसन्न हो जाते हैं तो जातक को अनेक प्रकार की व्याधियाँ व कष्ट झेलने पड़ते हैं।

कालांतर में पितृ या तो मोक्ष को प्राप्त करते हैं, या पृथ्वी लोक पर पुनः जन्म ले लेते हैं। यदि परिवार के सभी पितरों का पुनर्जन्म या मोक्ष हो गया हो तो कुछ समय के लिए उस परिवार के कोई पितृ नहीं होते। ऐसे में जातक सुख दुख अपनी कुंडली अनुसार प्राप्त करता है। अतः परिवार के सदस्यों को चाहिए कि जब तक वे पितृ लोक में हैं तब तक तर्पणादि से उनकी सेवा करें। यदि पितृ प्रसन्न रहते हैं तो आशीर्वाद स्वरूप जातक चहुमुखी प्रगति प्राप्त करता है।

पितृ अप्रसन्न, दुःखी एवं अतृप्त होते हैं यदि किसी पूर्वज की अंतिम इच्छा पूर्ण न हुई हो, या किसी के द्वारा श्रापित हों या असामयिक मृत्यु हो गई हो। पितृ योनि में रहते हुए भी उन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। यदि परिवार के सदस्य तर्पणादि द्वारा भोजन नहीं देते हैं तो वे भूख से व्याकुल हो जाते हैं। पितृ विभिन्न प्रकार के कष्टों की अनुभूति करते हैं जब तक कि जातक पितरों की शांति हेतु पूजन-पाठ, पिंडदान, तर्पण आदि न करे।

पितृ दोष अपने कर्मों के कारण न हो करके, अपने माता-पिता या पूर्वजों के कर्मों के कारण होते हैं, क्योंकि यह दोष तो जातक के जन्म से जन्मपत्री में विद्यमान होता है जबकि कर्म तो जन्म के बाद ही बनते हैं। अतः पितृदोष ऐसा दोष है जिसका कोई कारण समझ में नहीं आता, केवल लक्षण दर्शित होते हैं। जन्मपत्री में भी शुभ दशा व गोचर के योग होते हुए भी हमें हमारे कर्मों का फल प्राप्त नहीं होता, या घर में सदैव कलह, अशांति, धन की कमी व बीमारी लगी रहती है। संतान नहीं होती या संतान विक्षिप्त होती है, बच्चों के विवाह में अड़चन आती है या उनके विकास में अवरोध आते हैं। अतः जब भी किसी प्रकार की समस्या बार-बार आती है एवं कोई कारण नजर न आता हो तो हमें पितृ दोष की शांति करवानी चाहिए जब तक कि वातावरण और परिस्थितियां अनुकूल न हो जाएं।

पितृदोष लक्षण

1. परिवार में आकस्मिक मृत्यु या दुर्घटना होना।
2. आनुवांशिक बीमारी होना और लंबी अवधि तक बीमारी का चलना।
3. परिवार में शारीरिक रूप से विकलांग या अनचाहे बच्चे का जन्म होना।
4. परिवार में बच्चों द्वारा असम्मान या प्रताड़ना का व्यवहार करना।
5. गर्भ धारण न होना या गर्भपात होना।
6. परिवार के किसी सदस्य का विवाह न होना।

7. परिवार में किसी बात को लेकर झगड़ा-फसाद होना।
8. कभी खत्म न होने वाली गरीबी परिवार में हो जाना।
9. बुरी आदतों की लत लग जाना।
10. परिवार में बार-बार केवल कन्या संतान का जन्म होना।
11. शिक्षा में बाधाएं आना।
12. स्वप्न में सांप दिखाई देना।
13. माथे पर गंदी करतूतों का कलंक लगना।
14. परिवार में किसी बुजुर्ग के बाल सफेद होने के पश्चात पीले होने लगना या काली खांसी होना।
15. परिवार के किसी सदस्य को स्वप्न में पूर्वज द्वारा खाना या कपड़े मांगते हुए दिखना।

पितृ की पहचान :

1. श्रीमद् भगवद् गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ करें तो आपको कुछ दिनों में ही स्वप्न में पितृ दर्शन होंगे।
2. रात को सोने से पहले हाथ पैर धोकर अपने मन में अपने पितृ से प्रार्थना करें कि जो भी मेरे पितृ हैं वे मुझे दर्शन दें।
3. यदि आपका कोई कार्य अटक रहा है तो अपने पितृ को याद कीजिए और उन्हें कहें कि यदि आप हैं तो मेरा अमुक कार्य हो जाए। मैं आपके लिए शांति पाठ कराउंगा। आपकी ऐसी प्रार्थना से कार्य सिद्धि हो जाने पर यह प्रमाणित हो जाएगा कि आपको पितृ शांति करवानी चाहिए।

पितृ दोष उपाय :

1. श्राद्ध पक्ष में मृत्यु तिथि के दिन तर्पण व पिंडदान करें। ब्राह्मण को भोजन कराएं व वस्त्र/दक्षिणा आदि दें।
2. यदि मृत्युतिथि न मालूम हो तो श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदानादि कर्म करें।
3. प्रत्येक अमावस्या विशेषतः सोमवती अमावस्या को पितृभोग दें। इस दिन गोबर के कंडे जलाकर उसपर खीर की आहुति दें। जल के छींटे देकर हाथ जोड़ें व पितृ को नमस्कार करें।
4. सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें व गायत्री मंत्र का जप करें।
5. पीपल के पेड़ पर जल, पुष्प, दूध, गंगाजल व काले तिल चढ़ाकर पितृ को याद करें, माफी और आशीष मांगें।
6. रविवार के दिन गाय को गुड़ या गेहूं खिलाएं।
7. लाल किताब के अनुसार परिवार में जहां तक खून का रिश्ता है जैसे दादा, दादी, माता, पिता, चाचा, ताया, बहन, बेटी, बुआ, भाई सबसे बराबर-बराबर धन, 1, 5 या दस रुपए लेकर मंदिर में दान करने से पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है।
8. हरिवंश पुराण का श्रवण और गायत्री जप पितृ शांति के लिए लोकप्रसिद्ध है।
9. गया या त्र्यंबकेश्वर में त्रिपिंडी श्राद्ध या नन्दी श्राद्ध करें।
10. नारायणबलि पूजा करवाएं।

11. पितृ गायत्री का अनुष्ठान करवाएं -

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्येव च ।

नमः स्वाहायै स्वधायैः नित्यमेव नमो नमः ।।

12. पितृ दोष निवारण उपायों में गया में पिंडदान, गया श्राद्ध तथा पितृ भोग अर्पण आदि क्रियाएं करते हुए उपरोक्त पितृ गायत्री मंत्र का उच्चारण करना चाहिए।

13. श्री कृष्ण मुखामृत गीता का पाठ करें।

पितृ पूजा के लिए आवश्यक निर्देश :

1. पितरों को मांस वाला भोजन न अर्पित करें।
2. पूजा के दिन स्वयं भी मांस भक्षण न करें।
3. पितृ पूजा में स्टील, लोहा, प्लास्टिक, शीशे के बर्तन का प्रयोग न करें। मिट्टी या पत्तों के बर्तनों का ही प्रयोग करें।
4. पितृ पूजा में घंटी न बजाएं।
5. पितृ पूजा करने वाले व्यक्ति की पूजा में व्यवधान न डालें।
6. बुजुर्गों का सम्मान करें।
7. पितरों के निमित्त किये जाने वाले गौ-दान से पितृ तृप्त होते हैं।
8. घर में पीने का पानी रखा जाता है उस स्थान पर विशेष पवित्रता रखें। यह स्थान पितृओं का स्थान माना जाता है।
9. पितृ कर्म हेतु साल में 12 मृत्यु तिथि, 12 अमावस्या, 12 पूर्णिमा, 12 संक्रांति, 12 वैधृति योग, 24 एकादशी व श्राद्ध के 15 दिन मिलाकर कुल 99 दिन होते हैं।

आपकी कुण्डली में पितृदोष

आपकी कुण्डली में किसी भी प्रकार का पितृदोष विद्यमान नहीं है, अतः आपको जीवन में पितृदोष के कारण कष्ट या परेशानी नहीं होगी।

नोट :

त्रिपिण्डी श्राद्ध एवं नारायण नाग बली पितृदोष के लिए मुख्य उपाय हैं। यह सूर्यबकेश्वर में विशेष रूप से कराये जाते हैं। त्रिपिण्डी श्राद्ध में आटे को पानी में मांढ़ कर पुतले के रूप में पूर्वजों के प्रतीकात्मक पिंड बना लिये जाते हैं, उन पर मंत्रों का पाठ किया जाता है। अंत में अस्थि विसर्जन के समान उनको जल में प्रवाह कर दिया जाता है।

नारायण नागबलि, पूर्वजों के मोक्ष व उनकी इच्छा पूर्ति के लिए कराया जाता है। इसमें दो दिन श्मशान क्रिया होती है व तीसरे दिन मांगलिक पूजा की जाती है। यदि पितृदोष के कारण संतान बाधा या विवाह बाधा आदि होती है तो इस उपाय के पश्चात जातक बाधामुक्त हो जाता है और काम स्वतः बनने लगते हैं।

ग्रह फल

सूर्य

ग्यारहवें भाव में सूर्य हो तो जातक धनी, बलवान्, सुखी, स्वाभिमानी, तपस्वी, मितभाषी, सदाचारी, योगी, अल्पसन्तति एवं उदररोगी होता है।

मेष राशि में रवि हो तो जातक उदार, गम्भीर, शूरवीर, आत्मबली स्वाभिमानी, प्रतापी, चतुर, पित्तविकारी, युद्धप्रिय, साहसी एवं महत्वाकांक्षी होता है।

आपके जन्म समय में सूर्य एकादश भाव में स्थित है अतः आप पिता के हमेशा प्रिय रहेंगे। उनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा सामान्य रूप से वे शारीरिक व्याकुलता की अनुभूति भी करेंगे। धनैश्वर्य एवं सम्मान से वे हमेशा युक्त रहेंगे एवं जीवन में आपको सर्वप्रकार के शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में अपना वांछित आर्थिक तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान करते रहेंगे। साथ ही आपके धनार्जन के साधनों की उन्नति में भी वे आपको प्रायः सहयोग तथा निर्देश प्रदान करते रहेंगे।

आपकी भी उनके प्रति पूर्ण सम्मान की भावना रहेगी एवं उनकी आज्ञा का अनुपालन करने के लिए सर्वदा तत्पर रहेंगे। आपके परस्पर संबंध मधुर रहेंगे तथा यदा कदा सैद्धान्तिक मतभेद भी उत्पन्न होंगे। आप जीवन में उनको हमेशा वांछित सहयोग तथा सहायता प्रदान करते रहेंगे एवं अपनी ओर से उन्हें किसी भी प्रकार से कष्टानुभूति नहीं होने देंगे।

चन्द्र

दसवें भाव में चन्द्रमा हो तो जातक कार्यकुशल, व्यापारी, कार्यपरायण, सुखी, यशस्वी, विद्वान्, कुल-दीपक, दयालु, निर्बल बुद्धि, सन्तोषी लोकहितैषी, मानी, प्रसन्नचित्त एवं दीर्घायु होता है।

मीन राशि में चन्द्रमा हो तो जातक शिल्पकार, सुदेही, शास्त्रज्ञ, धार्मिक, अतिकामी और प्रसन्न मुख वाला होता है।

आपके जन्म समय में चन्द्रमा दशम भाव में स्थित है। अतः आप माता के प्रिय रहेंगे उनका शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा एवं आयु भी दीर्घायु होगी। विभिन्न प्रकार की धन सम्पत्ति तथा सुखसंसाधनों से वे युक्त रहेंगी एवं आपको जीवन में उन सभी सुखों से परिपूर्ण करने के लिए यत्नशील रहेंगी। उनके सहयोग से ही आप जीवन में नौकरी, व्यापार तथा यश को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

आप भी उनके प्रति श्रद्धावान रहेंगे एवं एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह उनकी आज्ञा का पूर्ण रूप से अनुपालन करेंगे। जीवन में उनकी सेवा सुविधा का आप पूर्ण ध्यान रखेंगे तथा यत्नपूर्वक उनको वांछित आर्थिक या अन्य प्रकार से सहयोग करते रहेंगे। आपके संबंध भी अच्छे रहेंगे एवं विचारों में विभिन्नता अल्प मात्रा में ही रहेगी। इस प्रकार एक दूसरे के लिए आप सामान्यतया शुभ ही रहेंगे।

मंगल

दसवें भाव में मंगल हो तो जातक कुलदीपक, स्वाभिमानी, सन्तति कष्टवाला, धनवान्, सुखी, उत्तम-वाहनों से सुखी एवं यशस्वी होता है।

मीन राशि में मंगल हो तो जातक गौवरवर्ण, कामुक, आज्ञाकारी गन्दा, अस्थिर जीवन, रोगी, प्रवासी, मान्त्रीक, बन्धु-द्वेषी, नास्तिक, हठी, धूर्त और वाचाल होता है।

आपके जन्म समय में मंगल की स्थिति दशम भाव में है अतः भाई बहिनों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा परन्तु यदा कदा शारीरिक अस्वस्थता भी महसूस करेंगे। आपके प्रति उनके मन में पूर्ण स्नेह विद्यमान रहेगा। धन सम्पत्ति से वे युक्त रहेंगे एवं जीवन में समस्त शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्यों में आपको अपना सहयोग प्रदान करते रहेंगे। इसके अतिरिक्त सुख दुःख में भी उनसे वांछित सहयोग आपको प्राप्त होता रहेगा। तथा नौकरी या यपार संबंध कार्यों में भी वे आपको सहयोग प्रदान करगै।

आपके हृदय में भी उनके प्रति पूर्ण स्नेह का भाव रहेगा तथा आपसी संबंधों में भी मधुरता रहेगी परन्तु कई बार मतभेदों के कारण संबंधों में तनाव भी उत्पन्न होगा परन्तु यह अल्प समय तक रहेगा। इसके साथ ही आप आजीविका संबंधी कार्यों में भी उन्हें सहयोग प्रदान करते रहेंगे एवं सुख दुःख में भी एक दूसरे का सहायता करते रहेंगे।

बुध

दशमभाव में बुध हो तो जातक सत्यवादी, मनस्वी, व्यवहार कुशल, लोकमान्य, विद्वान, लेखक, कवि जमींदार, मातृ-पितृ भक्त, राजमान्य, न्यायी एवं भाग्यवान् होता है।

मीन राशि में बुध हो तो जातक स्वाभिमानी, सदाचारी, सहनशील, भाग्यवान्, प्रवास में सुखी, मिष्टभाषी, कार्यदक्ष, धनसंही, नकल करने का स्वभाव, चिन्तित एवं छोटे दिल का होता है।

गुरु

लग्न (प्रथम) में गुरु हो तो जातक विद्वान् दीर्घायु, ज्योतिषी कार्यपरायण, लोकसेवक, तेजस्वी, प्रतिष्ठित, स्पष्टवक्ता, स्वाभिमानी, सुन्दर, सुखी, विनीत, पुत्रवान् धनवान्, राज्यमान, सुन्दर एवं धर्मात्मा होता है।

मिथुन राशि में गुरु हो तो जातक योग्य वक्ता, सुगठित शरीर, लम्बाकद, उदार, विद्वान, कई भाषाओं का जानने वाला, अनायास धनप्राप्त करने वाला, लोकमान्य, लेखक एवं व्यवहार कुशल होता है।

शुक्र

ग्यारहवें भाव में शुक्र हो तो जातक परोपकारी, लोकप्रिय, जौहरी, विलासी, वाहनसुखी, स्थिरलक्ष्मीवान्, धनवान् गुणज्ञ, कामी एवं पुत्रवान् होता है।

मेष राशि में शुक्र हो तो जातक स्वप्न जगत में विचारने वाला, आवेशपूर्ण स्वभाव, अस्थिरमन, दुःखी, बुद्धिमान्, आरामतलब, दुराचारी, परस्त्रीरत, झगड़ालू विश्वास हीन एवं अधिक खर्च करने वाला होता है।

शनि

दशम भाव में शनि हो तो जातक विद्वान्, ज्योतिषी, राजयोगी, न्यायी, नेता, धनवान्, राजमान्य, उदरविकारी, अधिकारी, चतुर, भाग्यवान् परिश्रमी, निरुद्पयोगी एवं महत्त्वाकांक्षी होता है।

मीन राशि में शनि हो तो जातक अविचारी, शिल्पकार हतोत्साही, धनी, प्रसिद्ध, सुखी एवं दूसरों की सहायता करने वाला होता है।

राहु

नवम भाव में राहु हो तो जातक प्रवासी, वातरोगी, व्यर्थ परिश्रमी, दुष्टबुद्धि, भाग्योदय से रहित, तीर्थाटनशील एवं धर्मात्मा होता है।

कुम्भ राशि में राहु हो तो जातक विद्वान्, लेखक मितभाषी एवं मितव्ययी होता है।

केतु

तृतीय भाव में केतु हो तो जातक चंचल, वायुजनित रोगों से पीड़ित, भाई बहन विहीन, धनी, व्यर्थवादी एवं भूतप्रेतभक्त होता है।

सिंह राशि में केतु हो तो जातक बहुभाषी, डरपोक, असहिष्णु, सर्पदशन का भय एवं असन्तोषी होता है।

दशा विश्लेषण

महादशा :- बुध
(17/04/2026 - 17/04/2027)

बुध की महादशा 17/04/2026 को आरम्भ होगी और 17 वर्ष की होकर 17/04/2027 को समाप्त होगी। आपकी जन्मकुण्डली में बुध दशम भाव में स्थित है। बुध की दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। इसके पूर्व आपकी 19 वर्ष की शनि दशा चल रही थी। शनि के कारण सन्तान से सुख और शत्रु पर विजय मिली होगी तथा कार्य स्थान में स्थिति अनुकूल रही होगी। बुध की इस दशा में आप को यश तथा ख्याति मिलेगी, जीवन में प्रगति होगी, सम्मान और उत्तम शिक्षा मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य अति उत्तम रहेगा। आपमें भरपूर शक्ति, उत्साह तथा क्रियाशीलता रहेगी। मौसम में परिवर्तन के कारण हल्का ज्वर, विषाणु जन्य संक्रामक बीमारी, त्वचा रोग तथा स्नायविक दुर्बलता हो सकती है। अधिक मानसिक तथा शारीरिक श्रम से बचे।

अर्थ और व्यवसाय :

इस दशा के दौरान आपकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ होगी। व्यवसाय तथा व्यापार से आय में वृद्धि होगी। जमीन-जायदाद से भी आय में वृद्धि होगी। आपको माता-पिता से लाभ मिल सकता है। सट्टे में लेन-देन लाभदायक होगा। जीविकोपार्जन के लिए लेखा, पत्रकारिता, शिक्षण, अन्तरिक्ष अनुसन्धान तथा सभी बौद्धिक कार्यों का चयन कर सकते हैं। सूती कपड़ा, रत्न, पुस्तक, लेखन सामग्री, कम्प्यूटर तथा हाथ से बने सामानों का व्यापार लाभदायक हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों को सम्मान मिलेगा, आय में वृद्धि होगी तथा वरिष्ठ कर्मचारियों और उच्चाधिकारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। कार्य-स्थान में स्थिति अनुकूल होगी और अधीनस्थ कर्मचारियों तथा सहकर्मियों से सहयोग मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय तथा लाभ में वृद्धि होगी। व्यापार में विस्तार तथा व्यवसायियों के कार्य-क्षेत्र में वृद्धि होगी। आर्थिक तथा व्यावसायिक समृद्धि के लिए यह दशा उत्तम है।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

गुरु की अन्तर्दशा में आपको जीवन का सुख मिलेगा। जमीन-जायदाद से संबंधित लेन-देन लाभदायक होगा। चल-अचल सम्पत्ति से लाभ मिलेगा। वाहन सुख भी मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा में छोटी यात्रा तथा सूर्य की अन्तर्दशा में दूर की यात्रा होगी। कार्य के सिलसिले में यात्रा हो सकती है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा अति उत्तम होगी। आपकी शैक्षिक उपलब्धि आपकी जीविका की संभावना में वृद्धि करेगी। विज्ञान, लेखा, वाणिज्य, साहित्य तथा व्यापार के विषय में आपकी रुचि होगी। आप प्रतिभाशाली, कूटनीतिक तथा बहुमुखी हैं और विभिन्न विषयों में आपकी रुचि

Star Jyotish Kendra (Astro.Shailu)

Hanumaan chowk, Hanuman Mandir inside Sonika jewellers Satna (M.P.)

78369 55710

shailu.sikdar1990@gmail.com

है। आपका दिमाग विवेक पूर्ण व विश्लेषणात्मक है और आप सभी बौद्धिक कार्यों में अच्छा करेंगे।

परिवार :

आपको बच्चों से सुख मिलेगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध बहुत अच्छा रहेगा। आपके जीवन साथी की अचल सम्पत्ति में वृद्धि होगी, उनके अनेक मित्र होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। आपका जीवन साथी के साथ सम्बन्ध उत्तम रहेगा। आपकी माता की विदेश यात्रा, साझेदारों से लाभ तथा आध्यात्मिक कार्यों में रुचि होगी। आपके पिता का धन-संग्रह और सुख की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई-बहनों के कार्य में शुभ परिवर्तन और अचानक लाभ मिलेगा जबकि बड़ों का शुभ उद्देश्य के लिए व्यय होगा। आपका उनके साथ सम्बन्ध अति उत्तम रहेगा। इस दशा के दौरान आपको यश, सम्मान तथा सफलता मिलेगी।

अन्तर्दशा :

बुध की महादशा में बुध की अन्तर्दशा के फलस्वरूप आपको व्यवसाय में सफलता, यश और ख्याति मिलेगी। केतु कुछ समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। शुक्र की अन्तर्दशा में धन और समृद्धि की प्राप्ति होगी जबकि सूर्य को अन्तर्दशा में व्यय तथा यात्रा होगी। चन्द्र की अन्तर्दशा के कारण हर प्रकार का लाभ मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान छोटी यात्रा और कुछ बाधाएं हो सकती हैं। राहु की अन्तर्दशा में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान सुख और साझेदारों से लाभ मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा के फलस्वरूप बच्चों से सुख मिलेगा।

**महादशा :- केतु
(17/04/2027 - 17/04/2034)**

केतु की महादशा 17/04/2027 को आरम्भ और 17/04/2034 को समाप्त होगी। इसकी अवधि 7 वर्ष है। आपकी जन्मकुण्डली में केतु तृतीय भाव में स्थित है। केतु की दृष्टि नवम भाव पर है। इसके पहले आपकी बुध की दशा चल रही थी जिसकी अवधि 17 वर्ष थी। बुध के कारण आपको जीवन का सुख, सम्पत्ति तथा समृद्धि की प्राप्ति हुई होगी। केतु की वर्तमान दशा में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तथा सफलता और संबंधियों से सहायता मिलेगी।

स्वास्थ्य :

इस दशा के दौरान आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होगी। मौसम में परिवर्तन के कारण आपको पित्तदोष, फोड़ा-फुन्सी, विषाणुजन्य संक्रामक रोग, गले से संबंधित बीमारी आदि हो सकती है। कुछ सतर्कता से इनसे बचाव किया जा सकता है।

अर्थ और व्यवसाय :

आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आपकी स्व-अर्जित सम्पत्ति होगी। आपकी आय में वृद्धि होगी और सभी सुख मिलेगा। आपको सट्टे में अच्छा लाभ मिलेगा और निवेश लाभदायक रहेगा। जीविका के लिये दवा, कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी, सरकारी सेवा, लोक प्रशासन, सैन्य तथा राजनीतिक सेवा, तकनीकी विज्ञान, पेशेवर खेल आदि का चयन कर सकते हैं। चमड़े के सामान, सोना रत्न, संगमरमर, अनाज आदि का व्यापार लाभदायक रहेगा। नौकरी पेशा

लोगों को यश, ख्याति, आय में वृद्धि तथा सम्मान की प्राप्ति होगी। सहकर्मी तथा सहायक से सहायता मिलेगी और वरिष्ठ कर्मचारियों का अनुग्रह प्राप्त होगा। व्यवसाय-व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है किन्तु उनमें बाधाओं पर विजय पाने का संकल्प है। दशा में प्रगति के साथ-साथ स्थिति में सुधार होगा।

वाहन, यात्रा, जमीन-जायदाद :

बुध की अन्तर्दशा के दौरान आपको जीवन का सुख मिलेगा। आप अपना आवास बदल सकते हैं। आप एक नयी गाड़ी खरीद सकते हैं। जमीन-जायदाद के लेन-देन सावधानी से करें ताकि छोटे-मोटे नुकसानों को रोका जा सके। सूर्य की अन्तर्दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। इसकी पूरी दशा में आपकी छोटी यात्रा होगी। शुक्र की अन्तर्दशा के दौरान दूर की यात्रा की सम्भावना है।

शिक्षा :

आपकी शिक्षा उत्तम होगी। आप वाद-विवाद, कला-प्रदर्शन और खेल में बहुत सफल होंगे। आप परीक्षाओं और प्रतियोगिताओं में अच्छे करेंगे। दवा, कम्प्यूटर, भूगर्भ-शास्त्र, प्रशासनिक सेवा, कला, दर्शनशास्त्र आदि में आपकी रुचि होगी। आप दृढ़निश्चय और एकाग्रचित्त हैं और अपनी शिक्षा में अच्छे करेंगे।

परिवार :

परिवार के साथ आपका संबंध मधुर रहेगा। आपके बच्चे धनवान होंगे, उनके लक्ष्यों की पूर्ति होगी और आपको उनसे सुख मिलेगा। आपके जीवनसाथी की यात्रा और समृद्धि की प्राप्ति होगी और धार्मिक कार्यों की ओर उनका झुकाव होगा। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अन्तर्दशा :

केतु की महादशा में केतु की अन्तर्दशा के दौरान आपको सफलता और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुक्र के फलस्वरूप आपको आराम, सुख और उत्तम शिक्षा की प्राप्ति तथा यात्रा होगी। सूर्य के कारण आपकी छोटी यात्रा होगी, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और सगे संबंधियों से सहायता मिलेगी जबकि चन्द्र की दशा में लाभ और पारिवारिक आनन्द मिलेगा। मंगल की अन्तर्दशा के दौरान स्वास्थ्य के खराब होने, विरोध और सम्पत्ति-लाभ की सम्भावना है। राहु के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। गुरु की अन्तर्दशा के दौरान आपका विवाह होगा, जीविका में प्रगति और साझेदारों से लाभ मिलेगा जबकि शनि की अन्तर्दशा में कुछ परिवर्तन, पिता से लाभ, यात्रा और अध्यात्म में रुचि होगी। बुध की अन्तर्दशा में यश, ख्याति, उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि की प्राप्ति होगी। आपके पिता को साझेदारों से लाभ मिलेगा, उनकी यात्रा होगी और व्यापार में वृद्धि होगी। आपके छोटे भाई-बहनों को यश, ख्याति और सम्पत्ति मिलेगी जबकि बड़े भाई-बहनों को सट्टे में लाभ, उत्तम शिक्षा और सम्पत्ति की प्राप्ति होगी।

अंतर्दशा :- केतु - केतु
(17/04/2027 - 14/09/2027)

आपके लिए केतु महादशा 17/04/2027 को आरंभ हुई है। इस महादशा में पहली अंतर्दशा केतु की होगी जिसकी अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी। आपके लिए यह 17/04/2027 को प्रारंभ होकर 14/09/2027 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी केतु मोक्ष, अचानक घटने वाली घटना और नाना का कारक है।

इस अवधि में आपके भाई-बहनों से उत्तम संबंध रहेंगे। यात्रा से लाभ होगा। शत्रु पराजित होंगे, धन में बढ़त होगी। हिम्मत खूब होगी, जोखिमपूर्ण खेलों में रुचि हो सकती है। वैराग्य या संयमित जीवन जीने की भावना जागृत हो सकती है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। हाथों में कुछ दर्द हो सकता है। किस्मत साथ देगी। शिक्षा द्वारा प्रसिद्ध हो सकते हैं। तीर्थयात्रा, विदेश यात्रा, धन और निवेश की संभावना है।

आपके जीवनसाथी भाग्यशाली होंगे, धनी बनेंगे। आपके पिता को साझेदार से लाभ होगा। माता के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। अध्यात्म में रुचि होगी। आपके भाई-बहनों के लिए प्रसिद्धि, आत्मविश्वास, व्यापार योजना, निवेश से लाभ और कला में रुचि का संकेत है।

आपकी संतान सफल और धनी होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे।

अगर आप सेवारत हैं तो सफल होंगे, कार्यक्षेत्र में प्रगति होगी। परामर्शदाता स्पर्धियों पर सफलता प्राप्त करेंगे; उत्साह से पूर्ण रहेंगे। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे, खूब धन कमाएंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए उड़द की दाल, कंबल और तिल का तेल दान करें।

अंतर्दशा :- केतु - शुक्र
(14/09/2027 - 13/11/2028)

केतु महादशा में शुक्र अंतर्दशा की अवधि 1 वर्ष 2 मास होगी।

इस अवधि में आपकी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी। किस्मत साथ देगी, लोकप्रियता बढ़ेगी। धनागम अच्छा होगा। धन संचित होगा, अचल संपत्ति और वाहन क्रय कर सकते हैं। सुख-साधन उपलब्ध रहेंगे। आपके बहुत से ज्ञानवान और प्रभावशाली मित्र होंगे जो लाभकारी रहेंगे। कला में रुचि होगी। आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। कार्यक्षेत्र में उच्चपद प्राप्त होगा, सम्मान मिलेगा।

आपके जीवनसाथी सौभाग्यशाली होंगे। आपके पिता को स्वयं के प्रयास से सफलता मिलेगी; वे धनी बनेंगे, लघु यात्राएं होंगी। माता विरासत द्वारा अचल संपत्ति की मालिक बन सकती हैं; धनी बनेंगी। आपके छोटे भाई-बहनों के लिए यात्रा, पिता से लाभकारी

संबंध, धन-समृद्धि और प्रसन्नता का योग है। बड़े भाई-बहन उच्चपद प्राप्त करेंगे, प्रसिद्ध और धनी बनेंगे।

आपकी संतान सफल रहेगी, उत्तम मित्र होंगे। अगर वे कार्यरत हैं तो व्यापार से लाभ होगा, किस्मत साथ देगी, धनार्जन अच्छा होगा। अगर आप सेवारत हैं तो कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाताओं को विविध माध्यमों से लाभ होगा। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए शुक्र मंत्र का जाप करें।

ॐ शुं शुक्राय नमः

अंतर्दशा :- केतु - सूर्य (13/11/2028 - 21/03/2029)

आपके लिए केतु महादशा 17/04/2027 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में सूर्य की अंतर्दशा की अवधि 4 मास 6 दिन होगी जो आपके लिए 13/11/2028 को प्रारंभ होकर 21/03/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी सूर्य पिता, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कार्यक्षमता और आत्मा का कारक है।

इस अवधि में आपको आसानी से सफलता मिल जाएगी। सरकार से लाभ हो सकता है। महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मित्रता हो सकती है जो लाभकारी रहेगी। बड़े भाई-बहनों से उत्तम संबंध रहेंगे। निवेश से लाभ हो सकता है। सब सुख नसीब होंगे। आपकी संतान धनी बनेगी। आपकी शिक्षा उत्तम हो सकती है।

आपके जीवनसाथी सफल और धनी बनेंगे। आपके पिता की इच्छाएं पूर्ण होंगी, धनार्जन उत्तम होगा। माता के जीवन में कुछ परिवर्तन हो सकता है, अचानक धन मिल सकता है।

आपके भाई-बहनों के लिए सौभाग्य, धन, अध्यात्म में रुचि और प्रसिद्धि का संकेत है। आपकी संतान धनी बनेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो साझेदार के माध्यम से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो स्पर्धियों पर विजयी रहेंगे, कार्यालय उत्तम होगा। परामर्शदाताओं की आय बढ़ेगी। व्यापारी भाग्यशाली रहेंगे।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए गायत्री मंत्र का जाप करें।

अंतर्दशा :- केतु - चन्द्र (21/03/2029 - 20/10/2029)

आपके लिए केतु महादशा 17/04/2027 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में चंद्रमा अंतर्दशा की अवधि 7 मास रहेगी जो आपके लिए 21/03/2029 से प्रारंभ होकर 20/10/2029 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी चंद्र मन, भावनाओं और माता का कारक है।

इस अवधि में आप सफल होंगे। शिक्षा उत्तम होगी। नेकी के कार्य करेंगे। माता के साथ लाभकारी संबंध होंगे। आपकी उपलब्धियों की प्रशंसा होगी। खेती और अचल संपत्ति से लाभ हो सकता है; वाहन सुख रहेगा। आप प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। उच्चपद प्राप्त हो सकता है। परिवार से भावनात्मक संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी।

आपके जीवनसाथी को अचल संपत्ति प्राप्त हो सकती है। आपके पिता की आय अच्छी होगी, घरेलू जीवन सुखी रहेगा, धनागम होगा। माता को साझेदारी से लाभ होगा, यात्रा हो सकती है। आपके भाई-बहनों के लिए परिवर्तन, अप्रत्याशित घटना, खर्च, यात्रा और सफलता में बाधा का संकेत है।

आपकी संतान का स्वास्थ्य उत्तम होगा; कार्यक्षमता बढ़ेगी। अगर वे कार्यरत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे; सुख-साधन संपन्न होंगे, माता पक्ष के लोगों से लाभ होगा।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे, आय में बढ़ोत्तरी होगी। परामर्शदाता सफल और लोकप्रिय बनेंगे। व्यापारियों को भूतकाल में किये निवेश से लाभ होगा।

आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए चांदी, दूध, चावल, मिश्री, सफेद चंदन का दान करें।

**अंतर्दशा :- केतु - मंगल
(20/10/2029 - 18/03/2030)**

आपके लिए केतु की महादशा 17/04/2027 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में मंगल अंतर्दशा की अवधि 4 मास 27 दिन रहेगी जो आपके लिए 20/10/2029 को प्रारंभ होकर 18/03/2030 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी मंगल शारीरिक शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास का कारक है।

इस अवधि में आप प्रसिद्ध होंगे। सब कार्यों में सफलता मिलेगी। निवेश या शेयरों से लाभ हो सकता है, स्पर्धियों पर विजय मिलेगी, उच्चपद प्राप्त कर सकते हैं। उत्साह, साहस और कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

आपके जीवनसाथी सफल होंगे, उनके सारे काम पूर्ण होंगे। आपके पिता की आय अच्छी होगी, पारिवारिक जीवन उत्तम होगा, खर्च बढ़ सकते हैं। माता को साझेदारी से लाभ होगा।

आपके भाई-बहनों के लिए कुछ परिवर्तन, अचानक लाभ, मातापक्ष से लाभ, परीक्षा में सफलता का संकेत है। आपकी संतान की शिक्षा उत्तम होगी, सफल होंगे, तकनीकी विषयों में रुचि होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो धनी बनेंगे, निवेश से लाभ होगा, मुकदमे में विजय मिल सकती हैं, किराये से आमदनी बढ़ेगी।

अगर आप सेवारत हैं तो भाग्यशाली रहेंगे। परामर्शदाता प्रसिद्धि प्राप्त करेंगे। व्यापारियों का लाभ उत्तम होगा। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभत्व में वृद्धि के लिए मंगल

के मंत्र का जाप करें।

ॐ अं अंगारकाय नमः

**अंतर्दशा :- केतु - राहु
(18/03/2030 - 05/04/2031)**

आपके लिए केतु महादशा 17/04/2027 को प्रारंभ हुई थी। इस महादशा में राहु अंतर्दशा 1 वर्ष 18 दिन की होगी जो आपके लिए 18/03/2030 को प्रारंभ होकर 05/04/2031 को समाप्त होगी। अंतर्दशा स्वामी राहु दादा, अचानक घटने वाली घटना और भौतिक सुखों का कारक है।

इस अवधि में आपको सांसारिक सुख उपलब्ध रहेंगे। शिक्षा द्वारा प्रसिद्धि मिलेगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह हो सकता है। सब कार्य बाधाओं के बावजूद पूर्ण हो जाएंगे। भाग्य साथ देगा। यात्रा, लेखन और प्रकाशन से लाभ हो सकता है। भाइयों के साथ मधुर संबंध रहेंगे। समाज और व्यापार में सम्मान बढ़ेगा।

आपके जीवनसाथी सब कार्यों में दृढ़निश्चय का परिचय देंगे। आपके पिता के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।

माता को शत्रुओं पर विजय मिलेगी, कार्यालय उत्तम होगा। आपके भाई-बहनों के लिए साझेदारी से लाभ, आर्थिक प्रगति के अवसर और व्यापार में विस्तार का संकेत है। आपकी संतान परीक्षा में सफल होगी, शिक्षा संपूर्ण होगी। अगर वे कार्यरत हैं तो निवेश से लाभ होगा, रोज़गार मिलेगा, संतान से सुख मिलेगा।

अगर आप सेवारत हैं तो उच्चाधिकारी प्रसन्न रहेंगे, पहले की साख द्वारा उन्नति होगी। परामर्शदाताओं के खर्चे बढ़ सकते हैं, यात्राएं होंगी। व्यापारियों को स्पर्धा में सफलता मिलेगी।